

B. A. (VOCATIONAL STUDIES)
TOURISM MANAGEMENT
(BAVTM)

Term-End Examination

December, 2025

**BTMC-138 : MANAGERIAL ACCOUNTING AND
FINANCE IN TOURISM**

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

Note : Attempt any *five* questions in about
*600 words each. All questions carry equal
marks.*

1. Who are the various parties interested in accounting information, and why ? 20
2. What do you mean by double entry system ?
Distinguish it from single entry system. 20

3. Is the trial balance a conclusive proof of the accuracy of the books of accounts ? Why ? Discuss the errors not disclosed by the trial balance. 20
4. Explain the need and significance of depreciation ? What factors should be considered for determining the amount of depreciation ? 20
5. Write short notes on the following in about 150 word each : 4×5=20
 - (a) Cost of goods sold
 - (b) Gross profit
 - (c) Trading account
 - (d) Direct expenses
6. Give the format of Trading Account and Profit and Loss account. 20
7. Discuss the challenges faced by the financial managers in India. 20
8. What is capital structure ? Explain the importance of capital structure in planning ? 20

9. Explain the factors that influence working capital needs. 20
10. What is cash flow statement ? Explain the techniques of preparing a cash flow statement. 20

BTMC-138

बी. ए. (व्यावसायिक अध्ययन)

पर्यटन प्रबंधन

(बी.ए.बी.टी.एम.)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2025

बी.टी.एम.सी.-138 : पर्यटन में प्रबन्धकीय

लेखांकन तथा वित्त

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लगभग 600 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. लेखांकन सूचना में रुचि रखने वाले विभिन्न पक्ष कौन हैं, तथा क्यों ? 20
2. डबल एन्ट्री (दोहरी प्रविष्टि) प्रणाली से आप क्या समझते हैं ? एकल प्रविष्टि प्रणाली से इसकी भिन्नता बताइए। 20

D-3109/BTMC-138

3. क्या ट्रायल बैलेंस लेखा बहीखातों की शुद्धता का परिणामात्मक साक्ष्य है ? उन त्रुटियों की विवेचना कीजिए जिन्हें ट्रायल बैलेंस द्वारा सामने नहीं लाया जाता। 20
4. मूल्यह्रास की आवश्यकता तथा महत्व की विवेचना कीजिए। मूल्यह्रास की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किन तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए ? 20
5. निम्नलिखित विषयों पर लगभग 150 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : $4 \times 5 = 20$
 - (अ) विक्रय की गई वस्तुओं की लागत
 - (ब) सकल लाभ
 - (स) व्यापार लेखा
 - (द) प्रत्यक्ष व्यय
6. व्यापार लेखा तथा लाभ और हानि लेखा का प्रारूप बनाइए। 20
7. भारत में वित्तीय प्रबंधक द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। 20

8. पूँजी संरचना क्या है ? नियोजन में पूँजी संरचना के महत्व की विवेचना कीजिए। 20
9. उन तत्वों की विवेचना कीजिए जो कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। 20
10. नकद प्रवाह विवरणिका क्या है ? एक नकद प्रवाह विवरणिका तैयार करने की तकनीकों की विवेचना कीजिए। 20

× × × × ×